



**TAGORE INTERNATIONAL SCHOOL**  
**VASANT VIHAR, NEW DELHI**  
**FINAL EXAMINATION 2024-25**  
**SYLLABUS**  
**CLASS IV**

## **ENGLISH**

### **Section A READING**

Unseen comprehension passage

### **Section B WRITING**

1. Picture Composition
2. Informal Letter

### **Section C LITERATURE**

1. At least a fish
2. The Gentle-Monster Killer
3. The Case of the Candy Bandit
4. Tansen - The Magical Musician
5. The Swiss Family Robinson

### **Section D: USAGE**

1. Coordinating Conjunctions
2. Modals
3. Future Time Reference
4. Subject - Verb Agreement
5. Use of comma and Apostrophe (possession)

## **MATHEMATICS**

### **1. MULTIPLICATION**

- Multiplication of 4/5-digit number by 2 /3 -digit number
- Properties of multiplication
- Multiplication by suitable rearrangement
- Multiplication by 10,100 & 1000
- Statement questions
- Preparing Bills

### **2. DATA HANDLING**

- Tally Marks table
- Reading/Interpreting bar graphs
- Making Bar graph

### **3. TIME**

- Use of a.m. & p.m.
- Convert 12- hour clock time into 24-hour clock
- Addition & Subtraction of time
- Statement questions

#### 4. FRACTIONS

- Like & unlike fractions
- Addition & subtraction of like fractions
- Comparing like fractions
- Proper, improper & unit fractions
- Converting improper into mixed fraction
- Converting mixed fractions into improper fractions
- Lowest form
- Equivalent fractions

#### 5. PERIMETER

- Perimeter of regular and irregular polygons
- Perimeter of square & rectangle
- Finding the missing side
- Statement questions

#### 6. DIVISION

- Division of 4 /5 -digit number by 1 / 2-digit number
- Properties of division
- Division by 10, 100, 1000
- Checking division by multiplication
- Statement questions

### HINDI

खंड क- अर्थग्रहण बोध  
अपठित गद्यांश

खंड ख - व्याकरण बोध

- क्रिया
- अनेकार्थी शब्द
- विलोम शब्द
- पर्यायवाची शब्द
- अनेक शब्दों के लिए एक शब्द

खंड ग- पाठ्यपुस्तक

- फूलों का नगर
- जब मैं पढ़ता था
- यात्रा जो पूरी न हो सकी
- जन्मदिन के बहाने
- दो बैलों की कथा

खंड घ- लेखन कौशल

- अनुच्छेद लेखन
- चित्र वर्णन

# **EVS**

## **Natural Resources**

Renewable and Non renewable resources (water, air, sunlight, soil, forests,metals, coal and petroleum)

## **Looking After Our Resources**

Saving our resources, Use of Solar energy, how air gets polluted, keeping the air clean, how water gets polluted, keeping water bodies clean, how soil gets dirty, keeping the soil clean, soil erosion, Use of 6 R's of Sustainability.

## **Force and Motion**

Force, pull and push, different types of forces, Simple Machines, Friction, types of Friction, pulley and types of pulley

## **Movements of the Earth**

Rotation of the Earth, Revolution of the Earth, Length of the day in summers and winters, How seasons are affected due to the position of the Earth in Different months

## **Weather and Climate**

Weather, Climate, water cycle, Climate zone, Different forms of condensation and precipitation, humidity, how is wind caused? Land breeze and sea breeze how climate affects us( houses, plants and animals and crops)

## **India- Land and Climate**

Political and Physical Map (States / Union territories and Landforms of India)  
Landforms of India, Climate at different Landforms

## **States of Matter**

Solid, liquid and gas  
Solubility- solute, solvent and solution

## **The Making of Clothes**

Natural and Synthetic fibres  
spinning, weaving, dyeing, printing  
Taking care of Clothes